



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 माघ 1941 (श०)

(सं० पटना 147) पटना, मंगलवार, 18 फरवरी 2020

सं० 08/आरोप-01-85/2014 सा०प्र०-1379
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

27 जनवरी 2020

श्री संदीप शेखर प्रियदर्शी, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1169/2011 तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, सारण के विरुद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-6654 दिनांक 21.08.2014 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गयी। प्राप्त आरोप पत्र में श्री प्रियदर्शी के विरुद्ध मुख्य रूप से अनुज्ञापन पदाधिकारी के रूप में प्राप्त पदीय शक्ति का दुरुपयोग करने, न्यायालय एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने, स्वेच्छाचारिता एवं व्यक्तिगत द्वेष से कार्य करने आदि का आरोप प्रतिवेदित किया गया (आरोप पत्र अनुलग्न)।

2 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय पत्रांक 12106 दिनांक 01.09.2014 द्वारा श्री प्रियदर्शी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री प्रियदर्शी ने अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक 45 दिनांक 15.01.2015) समर्पित किया। श्री प्रियदर्शी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 2041 दिनांक 06.02.2015 द्वारा प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4682 दिनांक 01.10.2019 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ। जिसमें श्री प्रियदर्शी के स्पष्टीकरण को स्वीकारयोग्य नहीं बताया गया।

3. तत्पश्चात श्री प्रियदर्शी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए श्री प्रियदर्शी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच की आवश्यकता पायी गयी।

4. अतएव सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री संदीप शेखर प्रियदर्शी, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1169/2011 तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, सारण सम्प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली) के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर होंगे एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे।

5. श्री प्रियदर्शी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राम विशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 147-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>